

ATLAS JEWELLERY INDIA LIMITED

Reg. Off.: DTJ-719, 7th Floor, DLF Tower B, Plot No. 11, Jasola District, New Delhi-110025 E-mail: info@atlasjewelleryindia.com, Phone: 011-40541077/41041149, Telefax: 011-40541077 Web: www.atlasjewelleryindia.com, CIN: L74140DL1989PLC131289

Date: August 30, 2020

To,
BSE Limited
Corporate Relation Department
Phiroze Jeejeebhoy Towers
Dalal Street
Mumbai- 400001

Subject: Newspaper publication of Un-Audited Financial Results for first quarter ended 30th June 2020 pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Scrip Code: 514394

Dear Sir,

This is to inform you that pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015, Un-Audited Financial results for first quarter ended 30th June 2020 have been published in English daily and regional newspaper. Please find enclosed the newspaper cuttings of the same.

Please take the information in your records.

Thanking You,

For ATLAS Jewellery India Limited

(Chandan Mahapatra)

Company Secretary & CFO

Encl: As Above

Will clear GST dues: Centre to States

Centre writes to States suggesting borrowing options to make up for GST shortfall

PTI ■ NEW DELHI

The centre in a letter to the 1 states has promised it would clear their goods and services tax (GST) dues despite the massive shortfall in GST cess collection amid the coronavirus pandemic, a situation that has been described as "an act of God" by Finance Minister Nirmala Sitharaman. The government in the letter said it wants to stay clear of "avoidable borrowing at the central level when it could be done at the state level" as central revenues are under "great strain" due to the pandemic.

The Union Finance Secretary and the Expenditure

meeting on September 1 to answer queries of the states on two options that the centre has proposed - the first being states won't have to service debt or repay it from other sources, and the second being states won't have to repay the principal amount from any other

The central Government on Saturday wrote to States suggesting options of borrowing money to make up for the ₹2.35 lakh crore shortfall in GST revenues expected in the ongoing fiscal.

Two days after first suggesting to states to borrow money to make up for the shortfall at the GST Council meeting, the Finance Ministry wrote to State Governments saying they could borrow either via a special window it will facilitate through the RBI or raise debt from the market.

While the Centre has reasoned its recommendations on

Secretary will hold an online premise that it is already saddled with a large borrowing requirement given the slowdown in revenue collections due to a slump in the economy, non-BJP ruled states such as Punjab, Kerala, Delhi and West Bengal have already stated that raising debt is not an option for already stretched state finances.

In a letter to finance secretaries of all states and union territories, Union Finance Secretary Ajay Bhushan Pandey said while additional borrowing by the Centre influences the yields on central government securities (G-secs) and has other macro-economic repercussions, the yields on state securities do not directly influence other yields and do not have the same repercussions.

"Hence, it is in the collective interest of Centre and states and in the interest of the nation and of all economic entities including the private sector, not to do any avoidable borrowing at the central level when it could be done at the state level," Pandey wrote in the letter. Compensation payment has been an issue since August 2019 with GST collections fal-

In the current fiscal, the compensation requirement of states has been estimated at ₹3 lakh crore, of which₹65,000 crore would be funded from the revenues garnered by levy

This leaves a shortfall of ₹2.35 lakh crore.

The Centre has estimated that of this ₹2.35 lakh crore, ₹97,000 crore compensation requirement is due to GST rollout and the remaining is on account of the impact of Covid-19 on the economy.

In the GST Council meeting on August 27, Finance Minister Nirmala Sitharaman had said that Covid-19 is an "Act of God" and it was necessary to differentiate between GST shortfall and the pan-

Govt sets out to decriminalise **GST laws**

IANS NEW DELHI

fter company law, the After company acro, and Government has now set out to decriminalise various offences under the GST laws to improve ease of doing business and ensure better compliance.

As part of the changes being considered by the Finance Ministry, a group of officers has been constituted by the Central Board of **Indirect Taxes and Customs** (CBIC) to hold stakeholder consultations and get inputs from the industry.

A final proposal will then be moved to the Cabinet.

Q1FY21 GDP contraction range seen from 17-30%

Clamour for stimulus grows

IANS NEW DELHI

The economic impact of Covid-19 on India's GDP is expected to be anywhere in between 17 per cent and 30 per cent during Q1FY21.

According to leading economists, the measures to curb the pandemic heavily dented manufacturing, services and other sectors apart from agriculture during the quarter. The country had observed

mobility restrictions as mandated under the lockdown measures for the better part of the first quarter of FY21.

It was only on June 1 that partial unlock measures were implemented.

However, a contraction at this scale has not been witnessed since the quarterly series began in the late 1990s.

In financial parlance, a GDP contraction not only indicates the economy's movement towards a recession, but also underlines the reduction in purchasing power along with lower taxes for the government, higher defaults on debt and falling Capex spends.

"We estimate a contraction of 17 per cent in Q1FY21 GDP as a direct result of lockdown, supply side constraints, and low to nil activity in non-essential manufacturing and services. While a robust growth in agriculture during this period is going to provide some cushion to the GDP growth, it will be insufficient to substitute the downfall arising out of the contraction caused in the manufacturing and services sector," Sunil Kumar Sinha, Principal Economist, India Ratings & Research, told IANS.

"Local or regional or weekend lockdowns and health related concerns of the general public are continuing to act as hindrances towards normalcy of economic activity and the eventual sustainability of growth.

"Given the evolving situation, there is an urgent need to prop-up demand in the economy which had been languishing from even before the Covid-19 related lockdown, otherwise supply side measures announced so far will soon run into difficulty due to lack of demand," Sinha

GSTN starts providing auto-drafted ITC statement to taxpayers

PTI ■ NEW DELHI

The GST Network on Saturday started providing auto-drafted input tax credit (ITC) statement GSTR-2B which would assist the taxpayers in determining their ITC liability

GSTN handles the IT backbone of Goods and Services Tax (GST).

GSTR-2B will be generated on GST portal for every registered person on the basis of the information furnished by his suppliers and will be made available for each month, on

Name of the Borrower(s)/ Guarantor(s)/ Loan Code

NAME), (COBORROWER_NAME1) oan code No -PTM31628), (Delhi), SF

(Enforcement) Rules, 2002.

Name of

Borrower(s) /Co-Borrowers/ Guarantors/

Loan Account No

(Borrower), Sunita (Co-Borrower) LBSNP00002385175

(Borrower), Shradha Mishra (Co Borrower)

LBNOD00002385629

Chander (Borrower) Tejpal (Co Borrowers)/

Sandeep Sahota

(Borrower), Palak

Ltd (Co-Borrower)

Sharad Mahawar

(Borrower), Neha Mahawar (Co-

LBDEL00003103265

Sahota (Co-Borrower)

Sands Infosystems Pvt

LBNOD00002115448

LBDEL00002384207

Bijender Kumar

Bamdeo Mishra

PUJAN (BORROWER NAMÉ). COBORROWER NAME1)

Date: 30-08-2020 Place: Delhi

GSTN handles the IT backbone of Goods and **Services Tax**

the 12th day of the succeeding month, GSTN said in a state-

"It is expected that GSTR-2B will help in reduction in time taken for preparing return, minimising errors, assisting reconciliation and simplify compliance relating to filing of returns," it said.

APPENDIX IV POSSESSION NOTICE (for immovable property)

Whereas, the undersigned being the Authorized Officer of Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL) under the Securitisation and

Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 and in exercise of powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002, Demand Notice(s) issued by the Authorised Officer of the company to the Borrower(s)

Guarantor(s) mentioned herein below to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrow having failed to repay the amount, notice is hereby given to the Borrower(s) / Guarantor(s) and the public in general that the undersigned has take

possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him under Sub-Section (4) of the Section 13 of the said Act read with Rule 8 of the Security Interest Enforcement rules, 2002. The borrower's attention is invited to provisions of sub-section (8) of section 13 of the Act, i

respect of time available, to redeem the secured assets. The borrower in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with th

PUBLIC NOTICE - TENDER CUM AUCTION FOR SALE OF SECURED ASSET

[See proviso to rule 8(6)] Notice for sale of immovable assets

E-Auction Sale Notice for Sale of Imovable Assets under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 read with proviso to Rule 8 (6) of the Security Interest

Notice is hereby given to the public in general and in particular to the Borrower(s) and Guarantor(s) that the below described immovable property mortgaged/charged to the Secured Creditor, the **Physical** possession of which has been taken by the Authorised Officer of ICICI Bank Ltd. will be sold on "As is where is", "As is what

Description of Secured Asset (Immovable Property)

All the Part & Parcel of Property -PLOT NO. I-290, SECTOR DELTA-11, GREATER NOIDA

All the Part & Parcel of Property -H/FLAT NO.142, FLOOR NO. 3RD, BLOCK-B, SECTOR. SWARN NAGARI, GREATER NOIDA, GREATER NOIDA-201308

property and any dealings with the property will be subject to the charge of DHFL for an amount as men

PICICI Bank Karol Bagh Delhi-110005

is", and "Whatever there is" as per the brief particulars given hereunder

Details of the Secured asset(s) with known encumbrances, if any

(C)

LIG Flat no 16, 3rd Floor, Sec

LIG DDA Flat No. 17, 4th Floor, Sec-34, Pocket-2, Block B5, Rohini Delhi Area.- 345

LIG DDA Flat No. 54, 3rd Floor

Sec-34, Pocket-2, Block E-3, Rohini Delhi Area.- 345 Sq. ft.

Unit No. 302, Second Floor, Block C, JNC Princess Park, Ahinsa Khand II, Indirapuram, Ghaziabad And/ Or Flat No C-

302, Second Floor, JNC

526/3, And 519, Village Mohiuddinpur Kanawani

Flat No. 8- E. 4th Floor.

Solutions Private Limited on 9710029933/9810029926/01244233933

Management Pvt Ltd have also been engaged for facilitating the sale of this property.

For detailed terms and conditions of the sale, please visit www.icicibank.com/n4p4s

Princess Park, Khasra No.

Pargana Loni, Tehsil Dadri, Gautam Budh Nagar- 201010. Area- 1800 Sq.Ft.

Pocket C, Sector 3, Phase- I, Dwarka, Delhi- 110075. Area- 307 Sq.Ft

The online auction will be conducted on website (URL Link-https://disposalhub.com) of our auction agency

M/s NexXen Solutions Private Limited. The Mortgagors/noticee are given a last chance to pay the total dues with further interest till October 14, 2020 before 05:00 P.M else these secured assets will be sold as per above

schedule. The Prospective Bidder(s) must submit the Earnest Money Deposit (EMD) Demand Draft (DD

Refer Column E) at ICICI Bank Limited, 3rd Floor Shal Tower, New Rohtak Road, Karol Bagh Delhi

110005 and thereafter they need to submit their offer through the above mentioned website only on or before

October 14, 2020 before 05:00 P.M along with scan image of Bank acknowledged DD towards proof of payment of EMD. Kindly note, in case prospective bidder(s) are unable to submit their offer through the

website then signed copy of tender documents may be submitted at ICICI Bank Limited, 3rd Floor Shal Tower, New Rohtak Road, Karol Bagh Delhi-110005 on or before October 14, 2020 before 05:00 P.M.

Earnest Money Deposit DD/PO should be from a Nationalized/Scheduled Bank in favour of "ICICI Bank

For any further clarifications with regards to inspection, terms and conditions of the auction or submission o

tenders, kindly contact ICICI Bank Limited on 9372730494/7304904154/8657476284 or M/s NexXen

Please note that Marketing agencies 1. M/s NexXen Solutions Private Limited 2. Augeo asset

The Authorised Officer reserves the right to reject any or all the bids without furnishing any further reasons

G-2, Pocket -2, Block A-5 Narela, Delhi-110040 Area-

DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION LIMITED

National Office: HDIL Towers, B-wing, 6th Floor, Anant Kanekar Marg, Station Road, Bandra (East) Mumbai - 400051. Regional Office: Plot No-6, Block A, Sector-2, Noida, U.P-201301.

Branch Office: ICICI Bank Limited, 3rd Floor Shal Tower, New Rohtak Road

Amount Outstanding

Rs. 17,00,348.24

(as on

August 17, 2020.)

4,54,575

(as on

15,39,663/

(as on

Rs. 93,62,772

(as on August 18, 2020)

15.70.218 /

(as on

August 20, 2020)

There shouldn't be further delay in NCDRC appointments: SC

PTI ■ NEW DELHI

There should not be a further delay in appointing members of the National Consumer Redressal Disputes Commission (NCDRC), the Supreme Court has said, asking the Centre to complete the process soon.

A bench of Justices L swara Rao, Hemant Gupta and S Ravindra Bhat made the observation while extending

ed herein under with interest thereor

26-08-2020

Time of Auction

(G)

October

15, 2020

From 11:00AM

Onwards

15, 2020

11:15 AM

onwards

October

15, 2020

From 11:30 AM

October

15, 2020

From 12.00Noon

Onwards

October

15, 2020 From 12.30PM

21-01-2020 For Rs. 978902/-(Nine Lac Seventy Eight Thousand Nine Hundred Two Rupees)

Reserve Price Earnest Money Deposit

(E)

Rs. 1,31,

Rs

20,9,

Rs. 20,90

20,9,

000/-

77,00 000

7.70.

14,60, 000/-

Rs

1.46

Property

01, 2020 from

11:00 AM

2:00 PM

October

01, 2020 from 11:00 AM

2:00 PM

01, 2020 from

11:00 AM

to 2:00 PM

October

01, 2020 from 11:00 AM

2:00 PM

01, 2020

11:00 AM

to 2:00 PM

DEWAN HOUSING FINANCE CORPORATION LIMITED

the term of an NCDRC member who is scheduled to retire on Sunday. "The finalisation of the selections and appoint-ments of members of NCDRC does not brook further delay," it said. "We hope and trust that the appointments to the NCDRC shall be made soon."

The apex court was considering a plea by the NCDRC member who has filed an application seeking a direction for extension of his service till the regular appointments are made. Attorney General K K Venugopal submitted that the recommendations made by the selection committee were under the consideration of the appointments committee of the cabinet (ACC).

The top court said as the applicant was due to retire on August 30, the term of his appointment was extended for a month. The apex court had earlier expressed its displeasure over pending vacancies in the NCDRC and said the issue had to be addressed urgently.

Tesla targeted in failed ransomware extortion scheme

In a tweet, Tesla CEO Elon Musk solved a mystery involving a 27-year-old Russian, an insider at an unnamed corporation and an alleged million-dollar payment offered to help trigger a ransomware extortion attack on the firm.Prosecutors declined to name the target, but Musk was happy to oblige. According to the billionaire, the scheme took aim at the electric car company's 1.9 million-squarefoot factory in Sparks, Nevada, which makes batteries for Tesla vehicles and energy storage units."This was a serious attack," Musk tweeted Thursday night, responding to a Tesla blog post that detailed the brazen scheme.Defendant Egor Igorevich Kriuchkov tried to recruit a fellow Russian speaker who worked at the plant, according to a criminal complaint filed in US District Court in Nevada.

Reaching out to the unnamed worker via WhatsApp in July, Kriuchkov allegedly flew to the United States with a Russian passport on a tourist visa and sought to entice the worker to betray Tesla. Kriuchkov allegedly took the worker, who hed hed first met in 2016, on a road trip to Lake Tahoe before offering the person \$ 1 million to plant malware on computer systems at "Victim Company A". Kriuchkov floated the scheme at a Reno area bar on August 3 after the two drank heavily until last call, the complaint says. But the plant worker informed Tesla, which contacted the FBI and won the employee's cooperation. In subsequent meetings monitored and recorded by federal agents, Kriuchkov laid out a scheme to have the worker infect Tesla computers with a program that would steal valuable data before scrambling plant systems with ransomware, according to the complaint.



PASUPATI ACRYLON LIMITED Q

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, the 04th September, 2020 inter-alia to consider and approve the Un-audited Financial Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2020.

he said intimation is available on the Company's website at www.pasupatiacrylon.com

Regd. Office: Kashipur Road, Thakurdwara, Distt. Moradabad (UP)

Jaipur: Rajashthan Housing Commissioner Pawan Arora said a large number of people planted saplings at City Park, Mansarovar by registering on

Tel.: 011-47627400, Fax: 011-47627497 Email:delhi@pasupatiacrylon.com

Mandal's RHB Green app. People came in two slots from 8am to 10 am and from 4 pm to 6 pm in the park.

CIN No.- L50102UP1982PLC015532

By order of the Board

Company Secretary

For Pasupati Acrylon Ltd.

ATLAS JEWELLERY INDIA LIMITED

CIN: L74140DL1989PLC131289 Reg. Off.: DTJ-719, 7th Floor, DLF Tower-B, Plot No: 11, Jasola, New Delhi-110025 Email: info@atlasjewelleryindia.com Phone: 011-41041149/ 40541077 Web: www.atlasjewelleryindia.com **EXTRACT OF STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR**

(Rs. in lacs except per share data) Year to Corresponding

S. No.	Particulars	30th June 2020 Unaudited	30th June 2020 Unaudited	the previous year 30th June 2019 Unaudited
1.	Total income from operations (net)	23.74	23.74	71.40
2.	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	13.52	13.52	(127.00)
3.	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	13.52	13.52	(127.00)
4.	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	9.35	9.35	(120.80)
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	9.35	9.35	(120.80)
6.	Equity Share Capital	10065.45	10065.45	10065.45
7.	Reserves (excluding Revaluation Reserve) as shown in the Audited Balance Sheet of the previous year			-
8.	Earnings Per Share (face value of Rs. 10 each) (before and after extraordinary items) -			
	1. Basic: 2. Diluted:	0.01 0.01	0.01 0.01	(0.12) (0.12)
Note	s:			

(1) The standalone unaudited financial results of the Company have been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (referred to as "Ind AS") notified under the Companies (India Accounting Standards) Rules, 2015 as amended by the companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules. The figures for the quarter ended 31 March 2020 are a balancing figure between the audited figures of the full financial year and the

unaudited year to date figure up to the third quarter of the financial year ending 31 March 2020 The company has only one segment of revenue.

(4) The Company's operations and financial results for the quarter have been very adversely impacted by the lockdown imposed to contain the spread of COVID-19. Further to declaration of COVID 19 as a pandemic by the World Health Organisation in March 2020 and the nationwide lockdown announced by the Government of India on 24 March 2020, the operations of the Company were severely disrupted resulting in significant loss of revenue with retail operations remaining closed for the whole of first quarter ended 30 June 2020. Even with the partial lifting of lock down the retail scenario remains grim due to negative consumer sentiments, low discretionary spends, high gold prices, most of the employees working from home among other factors. The results of the quarter are therefore not comparable with those of the previous quarter or same quarter last year. The Company has assessed the impact of pandemic on its financial results/position based on the internal and external information available up to the date of approval of these

financial results and expects to recover the carrying value of its assets.

(5) During the quarter ended 30 June 2020, the Company has renegotiated with certain landlords on the rent reduction/ waiver due to COVID 19 pandemic. The Management believes that such reduction/ waiver in rent is short term in nature and also meets the other conditions in accordance with the notification issued by the Central Government in consultation with National Financial Reporting Authority dated 24 July 2020 as Companies (Indian Accounting Standards) Amendment Rules, 2020 with effect from 1 April 2020 Thus, in accordance with the said notification, the Company has elected to apply the practical expedient available and the reduction waiver does not necessitate a lease modification as envisaged in the Standard. Accordingly, the Company has recognised' (1.91 lacs in the statement of profit and loss for the quarter ended 30 June 2020). (6) Response on basis for qualified conclusion in limited review report -

Trade Receivables are classified as Financial Instruments under Ind-AS 109 and the Company is required to provide for impairments/ obligations as per "Expected Credit Loss (ECL) Method. Since the matter is still being decided by the Honourable Court the Company is presently not in a position to quantify the impairment amount as per the said accounting standards and hence has decided to wait for the Court's outcome before providing for any "Expected Credit Loss" under Ind-AS 109. Management is of the view that notional foreign exchange gain or loss does not have any material impact on the Cash flows or

going concern, as the same is provided as per the requirements of Ind-AS 21. As regards reliance on cash sales, it is correct as the Company presently does not have any external borrowings primarily due to the reason that the Promoter's has been unable to actively manage the Company due to his open offer application pending with SEB from 2014 onwards and as a consequence his entire shareholding being locked in an escrow account as per SEBI guidelines. We

are given to understand that the promoter has filed a settlement application with SEBI and the same is expected to be resolved

shortly. Any favourable resolution will have a positive impact on the Company both financially as well as operationally Figures relating to the previous periods/year have been regrouped / reclassified wherever considered necessary. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at its meeting held on Augus 29, 2020. The same have also been subjected to Limited Review by the Statutory Auditors.

For ATLAS Jewellery India Ltd

CHITTARANJAN LOCOMOTIVE WORKS

OPEN TENDER

Dated: 29.08.2020

and BSE Ltd. at www.bseindia.com.

19.08.2020. Sl.No.; Tender No.; 9163340704. Brief Description of item; Qty.; (C). No. COS/CRJ/PUB/e-75203756; Leather bellow with mounting arrangement and hardware in a set for WAG9HC/WAP-7; **446** set; ₹ 740170; 10.11.2020 at 11.00 am. 121: 75203918; Flat washer for WAG-9/WAP-7 Loco. Flat washer for WAP-5 Loco; 392 set. 56 set; ₹ 0; 09.11.2020 at 11.00 am. [3];

9/WAP-7; **176 set. 271 set**; ₹ 0; 14.09.2020 at 11.00 am. [4]; **75203880**; Rubber support & Rubber stop; 28 nos.; ₹ 0; 14.09.2020 at 11.00 am. Office Address: Dy.CMM-III/CLW/Chittaranian, 9163340708 or SMM/HQ, 9163340712. (B). No. COS/CRJ/PUB/e-

24.08.2020. Note to vendors on

75203876; 1) Nylon tube for

WAP-5. 2) Nylon tube for WAG-

CLW/CHITTARANJAN, Sl.No.; Tender No.; Brief Description of item; Qty.; Earnest Money Note to vendors on Deposit (₹); Tender Closing Date e-Procurement for COS/ and Time (IST) are as follows: CLW/CHITTARANJAN. The [1]; 75204019; Central Under following e-Tenders can be Frame Assly. for WAG-9HC & accessed under the link WAP-7; 258 set; ₹ 2000000; www.ireps.gov.in Offers for such 28.09.2020 at 11.00 am. [2]; e-Tender can be submitted only 75203760; Sikaflex 221 (Gray) or electronically by accessing the Similar (Density 1.17 Kg/Ltr. or link www.ireps.gov.in → login Equivalent), (Shelf Life-9 months → E-Tender Stores/Supply. or more); 9518 Litre; ₹ 192050; Vendors may also contact the 24.09.2020 at 11.00 am. [3]; following officials to obtain 75203751; Torque Support for clarification regarding particular WAG-9HC/WAP-7; 1946 nos.; tender or IREPS related ₹442220; 17.11.2020 at 11.00 am. information if any, [4]; 75203773; Water Closet for Dy.CMM/HQ/CLW/Chittaranjan, WAG-9 Loco; 250 nos.; 0341-2525594 or ₹ 5000000; 21.09.2020 at SMM/CON/HQ, 0341-2535631. 11.00 am. Office Address: [A]. No. COS/CRJ/PUB/e- Dy.CMM-III/CLW/Chittaranjan, Tender/19/0162 Date: 9163340708 or SMM/G,

Earnest Money Deposit (₹); Tender/20/0162 Date: 25.08.2020. Tender Closing Date and Time Note to vendors on (IST) are as follows: [1]; e-Procurement for PCMM/ CLW/CHITTARANJAN. Sl.No.; Tender No.; Brief Description of item; Qty.; Earnest Money Deposit (₹); Tender Closing Date and Time (IST) are as follows: [1]; 71201075A; Master controller; 1548 nos.; ₹ 2000000; 14.09.2020 at 11.00 am. [2]; 71201088; Cubicle SB1 & SB2 (Bare); 559 set; ₹ 711230; 21.09.2020 at 11.00 am. [3]; 70201084; Main compressor with mounting accessories along with motor (Wound with Corona resistance wire); 995 set; ₹ 2000000; 25.09.2020 at 11.00 am. Office Address: Dy.CMM-III/CLW/Chittaranjan, 9163340710 or SMM/G, 9163340704.

Tender/20/0162 Date: Principal Chief Material Manager/ CLW/Chittaranjan ABC-086 e-Procurement for PCMM/ Like us on: www.facebook.com/clwrailways

Date: August 29, 2020 Place: Delhi/NCR

Sd/-Authorised Officer ICICI Bank Limited

Place: Kochi

Date: August 29, 2020

Nanda Kumaran Puthezhath DIN:0 2547619

आधुनिक प्रौद्योगिकी का उपयोग कर भारत ने टिड्डियों के प्रकोप को नियंत्रित किया : मोदी

भाषा। नई दिल्ली

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को कहा कि भारत ने ड्रोन सहित उन्नत तकनीकों का उपयोग करके फसल को नुकसान पहुंचाने वाले प्रवासी कीट- रेगिस्तानी टिड्डियों के प्रसार इस पर एक हफ्ते तक सकारात्मक को नियंत्रित किया और साथ ही यह भी सुनिश्चित किया कि फसल का अधिक नुकसान न हो।

झांसी के रानी लक्ष्मी बाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कॉलेज और प्रशासन भवनों का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उदघाटन करने के बाद अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कृषि क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के अधिक से अधिक उपयोग को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि कोविड -19 महामारी के राज्यों को टिड्डियों की समस्या का सामना करना पडा। उन्होंने कहा कि बंदेलखंड क्षेत्र को 30 वर्षों के बाद टिड्डियों के हमले का सामना करना पड़ा। कृषि क्षेत्र के सामने आने वाली आधुनिक प्रौद्योगिकियां कितनी हुए मोदी ने कहा कि देश में जिस गति से टिड्डियां का हमला हो रहा था, उसे पारंपरिक तरीकों से नियंत्रित करना संभव नहीं था। प्रधानमंत्री ने कहा, हुए हैं। केवल उत्तर प्रदेश ही नहीं, कार्य के लिए किया गया। इन

Tel.: 011-47627400, Fax: 011-47627497

and BSE Ltd. at www.bseindia.com.

Dated: 29.08.2020

Place: New Delhi

बल्कि 10 से अधिक राज्यों को उपायों से भारत किसानों को बड़े टिडिडयों के हमले की समस्या से जुझना पडा। उन्होंने कहा कि भारत ने इस समस्या को वैज्ञानिक तरीके से नियंत्रित किया। उन्होंने कहा, अगर कोरोनो वायरस नहीं फैला होता, तो



बीच उत्तर प्रदेश सहित 10 से अधिक मीडिया बहस होती। हमें एक बडी सफलता हासिल हुई। इस कीट से फसलों को बचाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा युद्धस्तर पर काम करने का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा कि ्रमांसी सहित अन्य जगहों पर एक चुनौतियों का समाधान करने में दर्जन नियंत्रण कक्ष स्थापित किए गए और अधिकारियों ने विशेष स्प्रे मशीनों की खरीद की और उन्हें प्रभावित क्षेत्रों में वितरित किया। उन्होंने कहा, चाहे ट्रैक्टर हों या रसायन हों, किसानों को कम से कम फसल का नुकसान हो, इसके मई में, बुंदेलखंड क्षेत्र में टिड्डियों की लिए सभी मशीनों को उपयुक्त समस्या का सामना करना पड़ा था ... जगहों पर लगाया गया। उंचे वृक्षों मुझे बताया गया था कि इस क्षेत्र में को बचाने के लिए ड्रोन और 30 वर्षों के बाद टिड्डियों के हमले हेलिकॉप्टरों का इस्तेमाल छिड़काव

CIN No.- L50102UP1982PLC015532

For Pasupati Acrylon Ltd.

Bharat Kapoo

पश्चिम बंगाल में लॉकडाउन के दौरान स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच बाल श्रम बढ़ाः सर्वेक्षण

कोलकाता। एक सर्वेक्षण के अनुसार कोरोना वायरस से निपटने के लिए लगाए गए लॉक्डाउन के दौरान पश्चिम बंगाल में स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच बाल श्रम बढ़ा है। सर्वेक्षण के अनुसार लॉक्डाउन से सभी प्रभावित हुए है और राज्य में स्कूल जाने वाले बच्चों के बीच बाल श्रम में १०५ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके अनुसार राज्य में लड़कियों में बाल श्रमिकों की संख्या लड़कों की तुलना मे ज्यादा हुई है। लड़कियों में बाल श्रमिकों की संख्या ११३ प्रतिशत बढ़ी है ।

एटलस ज्वैलरी इंडिया लिमिटेड ATLAS

सीआईएनः एल74140डीएल1989पीएलसी131289 पंजी. कार्यालयः डीटीजे–719, 7वां तल, डीएलएफ टावर–बी, प्लॉट सं. 11, जासोला जिला, नई दिल्ली-110025

ई-मेलः info@atlasjewelleryindia.com फोन : 011-41041149/40541077/ फैक्स : 011-40541077 वेबः www.atlasjewelleryindia.com

वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से आयोजन हेतु निर्धारित 30वीं वार्षिक सामान्य बैठक

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी की तीसवीं वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम") शुक्रवार, 25 सितम्बर, 2020 को अप. 2.00 बजे (आईएसटी), वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग ("वीसी")/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स ("ओएवीएम") के माध्यम से, एजीएम सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय के निष्पादन हेतु आयोजित

एजीएम का आयोजन, कम्पनी अधिनियम, 2013 के लाग प्रावधानों एवं तदधीन विरचित नियमो ("अधिनियम") ; भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड ("सेबी") (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 ('सूचीयन विनियमावली') के प्रावधानों तथा कार्पोरेट मंत्रालय, भारत सरकार ("एमसीए") द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 20/2020 दिनांकित 05 मई, 2020 के साथ पठित जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020 दिनांकित 08 अप्रैल, 2020 तथा जनरल सर्कुलर नंबर 17/2020 दिनांकित 13 अप्रैल, 2020 के साथ पठित सेबी द्वारा जारी सर्कुलर नंबर सेबी/एवओ/सीएफडी/सीएमडी1/सीआईआर/पी/2020/79 दिनांकित 12 मई, 2020 के

अनुपालन में, आयोजित की जाएगी। में निहित कठिनाइयों को देखते हुए, सूचीबद्ध कम्पनियों को कलैण्डर वर्ष 2020 के दौरान शेयरधारकों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट केवल ई–मेल द्वारा मेजने की अनुमति प्रदान की है। शेयरधारकों को एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक विधि द्वारा डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट / कम्पनी के पास पंजीकृत उनकी ई-मेल आईडी पर मेजी जाएगी।

शेयरघारकों से अनुरोध है कि वे सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए अपनी ई-मेल आईडी'ज तथा फोन नंबर कम्पनी अथवा बीटल फाइनैंशियल ऐंड कम्प्यूटर सर्विसेज प्रा. लि. ("बीटल"), रजिस्टार ऐंड टांसफर एजेन्ट के पास पंजीकत करवा लें। कपया अपना अनुरोध

इलेक्टॉनिक मोड : संबंधित डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट

मौतिक मोड : <u>info@atlasjewelleryindia.com</u> अथवा <u>beetalrta@gmail.com</u> सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट नामतः <u>www.atlasjewelleryindia.com</u> तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट नामतः <u>www.bseindia.com</u> पर भी अपलोड की जाएगी।

जिन शेयरधारकों ने अपना बैंक खाता विवरण अद्यतन/पंजीकृत नहीं करवाया है उनसे ऐसा करन का अनुरोध किया जाता है: इलेक्टॉनिक मोडः अपने डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंट के पास अद्यतन करने द्वारा

भौतिक मोडः कम्पनी के पास info@atlasjewelleryindia.com पर अथवा बीटल के पास etalrta@gmail.com पर, नाम, फोलियो नंबर, बैंक खाता विवरण के उल्लेखयुक्त पत्र तथा पैन कार्ड और निरस्त चैक पन्ना की स्व-सत्यापित प्रति भेजकर अद्यतन करने द्वारा। यदि निरस्त चैक वन्ना पर शेयरधारक का नाम नहीं होने की स्थिति में कृपया बैंक पास बुक विवरण की स्व-सत्यापित

कम्पनी अपने शेयरधारकों को सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड ("सीडीएसएल") द्वारा व्यवस्थित इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के माध्यम से रिमोट ई-बोटिंग की सुविधा उपलब्ध कराएगी। इलेक्ट्रॉनिक बोटिंग एजीएम में माग ले रहे शेयरधारकों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। उसके संबंध में विस्तृत विवरण एजीएम की सूचना में उपलब्ध कराया जाएगा तथा कम्पनी की वेबसाइट नामतः www.atlasjewelleryindia.com पर भी उपलब्ध कराया जाएगा। वास्ते एटलस जुलरी लिमिटेड

वास्ते एटलस जूलरी लिमिटेड

नन्द कुमारन पुतेझात (Nanda Kumaran Puthezhath)

स्थानः कोचि तिथिः 29 अगस्त, 2020

डीआईएनः 0 2547619

नकसान से बचाने में सक्षम हआ

है। आधुनिक कृषि प्रौद्योगिकियों

के महत्व पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री

ने युवा शोधकर्ताओं और कृषि-

वैज्ञानिकों को देशभर में ड्रोन या

क्त्रिम मेधा (एआई) जैसी

प्रौद्योगिकियों को बढावा देने के

लिए एक जीवन, एक मिशन पर

काम करने के लिए प्रेरित किया।

उन्होंने कहा कि पिछले छह वर्षों से

सरकार कृषि अनुसंधान को सीधे

खेतों तक पहुंचाने और यहां तक कि

छोटे किसानों को वैज्ञानिक सलाह

उपलब्ध कराने के लिए प्रयासरत

है। उन्होंने कहा, कॉलेज कैंपस से

लेकर खेत तक, विशेषज्ञों के लिए

पारिस्थितिकी तंत्र को और मजबूत

करने की जरूरत है। जिस दिशा में

केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय भी महत्वपर्ण भिमका का निर्वाह

करेगा। भारत को राजस्थान, मध्य

प्रदेश, पंजाब, गुजरात, उत्तर प्रदेश,

महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा,

उत्तराखंड और बिहार में टिड्डियों

की समस्या का सामना करना पडा।

सरकारी आंकडों के अनुसार,

प्रभावित राज्यों में केंद्र और राज्य

सरकारों द्वारा 5.66 लाख हेक्टेयर

क्षेत्र में समय पर उपाय किए जाने के

बाद अब इस समस्या को काफी हट

तक नियंत्रित कर लिया गया है।

दीवान हाउसिंग फाइनैंस कार्पोरेशन लिमिटेड राष्ट्रीय कार्यालय : एचडीएयएल टॉवर, बी-विंग, छठा तल. अनंत कानेकर मार्ग. स्टेशन रोड. बान्टा (ईस्ट) Changing Rules Changing Lives मुंबई 400051. आंचलिक कार्यालय : प्लॉट नंबर 6, ब्लॉक ए, सेक्टर-2, नोएडा, उत्तर प्रदेश 201301.

जबकि, अधोहस्ताक्षरी ने दीवान हाउसिंग फाइनैंस कार्पेरेशन लिमिटेड (डीएचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय आस्तियों को प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निमाण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम ३ के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित कर्नदार(रॉ)/गारंटर(रॉ) को नीचे दिए विवरण के अनुसार मांग सूचना(ए) जोरी की थी, जिनमें उनसे सूचना में वर्णित बकाया राशि व भगतान उक्त सचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उक्त राशि चकाने में असफल रहे है, एतद्वारा कर्जदार (सें)/गारंटर(सें) औ . इनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) हे तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहा नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा प्राप्त कर लिया है। कर्जदार का ध्यान, प्रत्याभूत आस्तियों को छुडाने के लिए, उपल समय के संबंध में, अधिनयम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधान की ओर आकृष्ट किया जाता है। कर्जदारों को विशेष रूप से तथा जनसाधारण को सामान्य रूप से इ संपत्ति के संबंध में संव्यवहार नही करने हेतु सावधान किया जाता है और संपत्ति के संबंध में कोई भी संव्यवहार कर्जदारों पर डीएचएफएल की बकाया राशि तथा उस पर ब्या

कर्जदार(रॉ)/ गारंटर(रॉ)	प्रत्याभृत आस्ति	मांग सूचना	कब्जा की	
का नाम/ऋण कोड	(अचल सम्पत्ति) का वर्णन	तिथि और राशि	तिथि	
(ऋण कोड सं. सिपीएल30513), (दिल्ली - सिपी),	सम्पत्ति के समस्त अंश एवं खंड : प्लॉट नं.	29-10-2019	26-08-2020	
रबिन्द्र कुमार सिंग (कर्जदार नाम),	आय-290, सेक्टर डेल्टा-11, ग्रेटर नोएडा,	रू. 35,89,706/- (रू. पैतिस लाख नवासी		
(सह-कर्जदार-नाम 1)	नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201308	हजार सातसो छह)		
(ऋण कोड सं. पिटीएम31628), (दिल्ली), शिव पूजन (कर्जदार नाम), (सह-कर्जदार-नाम 1)	सम्पत्ति के समस्त अंश एवं खंड : एच-फ्लॅट नं. १४२, तिसरी मंजिल, ब्लॉक-बी, सेक्टर स्वर्ण नगरी, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा – २०१३०८	21-01-2020 रू. 9,78,902/- (रू. नौ लाख अउहत्तर हजार नौसो दो)	26-08-2020	

दिनांक : 30.08.2020 ठिकाण : दिल्ली

हस्ता./ - (प्राधिकृत अधिकारी दीवान हाउसिंग फाइनैंस कापीरेशन लिमिटेड

क्यूबिकल फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड

पंजी. कार्यालयः 456. अग्रवाल मेट्रो हाइट्स, नेताजी सुभाष प्लेस, सीआईएनः एल65993डीएल1990पीएलसी040101

PASUPATI ACRYLON LIMITED

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the

SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 a Meeting of Board of Directors of the Company is scheduled to be held on Friday, the

24th September, 2020 inter-alia to consider and approve the Un-audited Financia

Results of the Company for the quarter ended 30th June, 2020.
The said intimation is available on the Company's website at www.pasupatiacrylon.com

Regd. Office: Kashipur Road, Thakurdwara, Distt. Moradabad (UP)

फोनः 011-45645347 ई-मेल आईडीः cubfinser@yahoo.com

एतदद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 के सभी लागू प्रावधानों एवं त्रविद्या पूर्णिया पासी है कि अन्य स्था जिलानेया , 2013 के ना सार्च अवस्था त्र तद्यीन विद्यानिया नियमों तथा संबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावती 2015 के साथ पठित कार्पोरेट मंत्रालय द्वारा जारी जनरल सर्कुलर नंबर 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 क्रमानुसार दिनांकित 08 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल, 2020 तथा 05 मई, 2020 ("एमसीए सर्कुलर्स") तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी सर्कुलर सेवी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी / सीआईआर / पी / 2020 / 79 दिनांकित 12 मई, 2020 के अनुपालन में, कम्पनी की 30वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम), बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 को अप. 02.00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग / अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (वीसी / ओएवीएम) माध्यम से, किसी उभय स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बगै आयोजित की जाएगी।

आवाणात का जारणा एमसीए सर्कुलर्स तथा सेवी सर्कुलर के अनुसार, 30वीं एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु वार्षिक रिपोर्ट, जिसमें 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष हेतु वित्तीय विवरण दिया गया है ('वार्षिक रिपोर्ट') केवल ई-मेल द्वारा उन समी सदस्यों को मेजी जा चकी है. जिनका ई-मेल पता डिपॉजिटरी पार्टिसिपैंटस अथवा कम्पनी के पास पंजीकत है। सदस्यों को एजीएम की सूबना तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यक एमसीए सर्कुलर्स तथा सेबी सर्कुलर द्वारा समाप्त कर दी गई है।

कट-ऑफ तिथि अर्थात 16 सितम्बर, 2020 को भौतिक अथवा अभौतिक रूप में शेयरों के घारक सदस्य 30वीं एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध साघारण और विशेष मदों पर अपना वोट सीडीएसएल के इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम ('रिमोट ई-वोटिंग') के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक

रिमोट ई—वोटिंग सुविधा तथा वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग/अन्य ऑडियो विजुअल मीन्स (बीसी/ओएवीएम) के माध्यम से बैठक के संबंध में, हम शेयरघारकों को निम्नानुसार अधिसुचित करने के इच्छुक है: क) कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन

नियमावली, 2014 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियमावली 2015 के विनियम 44 के अनुसार, एजीएम की सूचना में सूचीबद्ध व्यवसाय का निष्पाद-रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएम में ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से किया जा सकता है ख) कट-ऑफ तिथि अर्थात 16 सितम्बर, 2020 को शेयरों के घारक सदस्य रिगोर्ट ई-वोटिंग का उपयोग सकते हैं। एजीएम के आयोजन की सूचना उन समी शेयरघारकों को ई-मेल द्वारा 29 अगस्त, 2020 को मेजी जा चुकी है। की सूचना, 29 अगस्त, 2020 के बाद शेयरधारक बनने वाले तथा 16 सितम्बर, 2020 को शैयरों के घारक सदस्यों को ई—मेल द्वारा मेजी जाएगी, जिनकी ई—मेल आईडी कम्पनी/डिपॉजिटरीज के पास पंजीबद्ध हैं। ऐसे शेयरघारक अपना फोलियो नंबर/डीपी

आईडी एवं क्लाइट आईडी का उल्लेख करते हुए helpdesk.evoting@cdslindia.com अथवा beetalrta@gmail.com अथवा cubfinser@yahoo.com को अनुरोध मेजकर लॉगइन आईडी प्राप्त कर सकते हैं। बोट डालने की विधि का विस्तृत विवरण एजीएम की सूचना में दिया गया है, जो कम्पनी की वेबसाइट <u>www.cubicalrealtors.com</u> पर भी प्रदर्शित की गई हैं तथा रिमोट ई—वोटिंग एजेन्सी, सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड की वेबसाइट https://www.evotingindia.com पर भी प्रदर्शित की जाएगी।

https://www.evolingiiiuia.com पर ना अपारत वर्ग जार्जा । रिमोट ई—वोटिंग 20 सितम्बर, 2020 को पूर्वा, 9.00 बजे आरंम होगी तथा 22 सितम्बर 2020 को अप. 5.00 बजे तक उपलब्ध होगी और तदुपरांत उपलब्ध नहीं होगी। नोट करें किः i) रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल 22 सितम्बर, 2020 को अप. 5 00 बजे के बाद निष्क्रिय कर दिया जाएगा। ii) इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम हेत् सुविधा एजीएम में भी उपलब्ध कराई जाएगी। iii) एजीएम में भाग ले रहे जिन सदस्यों ने अपना वोट रिमोट ई-वोटिंग द्वारा नहीं डाला गया होगा, एजीएम में अपने वोट डालने के अधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। जो सदस्य अपना वोट रिभोट ई-बीटिंग द्वारा डाल चुके होंगे, वे बैठक में माग ले सकते हैं, परंतु उनको दोबारा एजीएम में वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। पत्र) कोई व्यक्ति, जिसका नाम डिपॉजिटरीज द्वारा अनुपक्षित लामार्थी स्वामियों की पंजिका अथवा सदस्यों की पंजिका में कट ऑफ तिथि अर्थात 16 सितम्बर, 2020 को दर्ज मौजूद होगा, केवल वही रिमोट ई-वोटिंग अथवा एजीएग

ई-वोटिंग की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा। a) रिमोट ई-वोटिंग/ई-वोटिंग के संबंध में किसी संदेह/स्पष्टीकरण/शिकायत की स्थिति में शेयरघारक श्री भावेन्द्र झा, वरिष्ठ प्रबंधक, बीटल फाइनेंशियल कम्प्यूटर सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, 99, मदनगीर, एलएससी के पीछे, नई दिल्ली–110062, फोन नंबर 9312771085, ई-मेलः <u>beetalrta@gmail.com</u> से सम्पर्क करें अथवा सीडीएसएल ई—वोटिंग टीम को <u>helpdesk.evoting@cdslindia.com</u> पर लिखें। श्री मुकेश कुमार अग्रवाल, कार्यरत कम्पनी सेक्रेटरी को रिमोट ई—वोटिंग/ई—वोटिंग

प्रक्रिया की संवीक्षा के लिए संवीक्षक नियुक्त किया गया है। ज) कृपया नोट करें कि आप एक बार ई-वोटिंग द्वारा मतदान के बाद उसमें कोई परिवर्तन

इ) रिनोट ई-बोटिंग/ई-बोटिंग, यदि कोई, जो एजीएम में सम्पन्न किया जा सकता है, के समेकित परिणाम कम्पनी द्वारा एजीएम के समापन के 3 दिन के मीतर घोषित किए जाएंगे तथा कम्पनी की वेबसाइट तथा रिमोट ई-वोटिंग एजेन्सी की वेबसाइट पर प्रदर्शित किए जाएंगे और स्टॉक एक्सचेन्जेज को भी सूचित किए जाएंगे।

आगे सूचना दी जाती है कि कम्पनी अधिनियम, 2013 की घारा 91 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 10 के अनुसरण में कम्पनी के सदस्यों की पंजिका तथा शेयर अंतरण बहियां बृहस्पतिवार, 17 सितम्बर, 2020 से बुधवार, 23 सितम्बर, 2020 तक (दोनों तिथियों सहित) वित्तीय वर्ष 2019–20 हेतु एजीएम के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।

तिथिः 29 अगस्त, 2020

अश्वनी कुमार गुप्ता तिथिः 29 अगस्त, 2020 (प्रबंध निदेशक)

एटलस ज्वैलरी इंडिया लिमिटेड

सीआईएनः एल74140डीएल 1989पीएलसी131289

ई–मेलः info@atlasjewelleryindia.com, फोनः 011–41041149 / 40541077, वेबः www.atlasjewelleryindia.com 30 जून, 2020 को समाप्त पहली तिमाही हेतु पृथक्कृत अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का संक्षिप्त विवरण (रू. लाख में, प्रति शेयर डेटा को छोड़कर)

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त	वर्षाद्यतन समाप्त	पूर्व वर्ष में संगत तिमाही
XI.		30 जून,	30 जून,	समाप्त
		2020	2020	30 जून, 2019
		अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित	अलेखापरीक्षित
1.	प्रचालनों से कुल आय (शुद्ध)	23.74	23.74	71.40
2.	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर, अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों से पहले)	13.52	13.52	(127.00)
3.	अवधि हेतु शुद्ध लाभ/(हानि), कर से पहले (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	13.52	13.52	(127.00)
4.	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि), कर पश्चात (अपवाद तथा/अथवा असाधारण मदों के बाद)	9.35	9.35	(120.80)
5.	अवधि हेतु कुल समावेशी आय [जिसमें अवधि हेतु लाम/(हानि) (कर पश्चात) तथा अन्य समावेशी आय (कर पश्चात) सम्मिलित हैं।		9.35	(120.80)
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	10065.45	10065.45	10065.45
7.	संवेय (पुनर्मूल्यन संवेय छोड़कर) जैसाकि पिछले वर्ष के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाया गया है	-	•	*
8.	प्रति शेयर अर्जन (अंकित मूल्य रू. 10/– प्रत्येक) (असाघारण मदों से पूर्व और पश्चात) –			
	1. मूलः	0.01	0.01	(0.12)
	2. तनुकृतः	0.01	0.01	(0.12)

कम्पनी के पृथक्कृत अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणाम भारतीय लेखांकन मानक ('आईएनडी एएस' के रूप में संदर्भित) के अनुसार तैयार किए के अधीन अधिस्चित किया गया है।

31 मार्च, 2020 को समाप्त तिमाही हेतु आंकड़े पूर्ण वित्तीय वर्ष के संबंध में लेखापरीक्षित आंकडों और संबंधित वित्तीय वर्ष के 31 मार्च, 202 को समाप्त तीसरी तिमाही हेतु अलेखापरीक्षित वर्षाद्यतन आंकड़ों के बीच संतुलनकारी आंकड़े हैं। कम्पनी के पास राजस्व का केवल एक खण्ड है।

कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन से कम्पनी के प्रचालन और वित्तीय परिणाम अत्यंत प्रतिकूल रूप से प्रमावित हुए हैं। इसके अतिरिक्त विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मार्च, 2020 में कोविड—19 को वैश्विक महामारी घोषित किए जाने तथा भारत सरकार द्वारा 24 मार्च, 2020 को राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन घोषित किए जाने से कम्पनी के प्रवालन गंभीर रूप से अव्यवस्थित हो गए थे, जिसके फलस्वरू 30 जून, 2020 को समाप्त पहली तिमाही में खुदरा प्रचालन पूरी तरह बंद रहने के कारण मारी राजस्व क्षति हुई है। लॉकडाउन को आंशिक रूप से हटाए जाने के बाद भी खुदरा परिदृश्य उपभोक्ताओं की नकारात्मक भावनाओं, निम्न विवेकशील खर्चों, सोने की ऊंची कीमतों तथा कर्मचारियों के घर से काम करने जैसे अन्य कारणों से धुंघला बना हुआ है। इसलिए तिमाही के परिणाम पिछली तिमाही अथवा पूर्व वर्ष की संगत तिमाही के साथ तूलनीय नहीं हैं। कम्पनी ने वैश्विक महामारी का इसके वित्तीय परिणामों /रिश्वित पर प्रमाव का आकलन इन वित्तीय परिणामों के अंतिम अनुमोदन की तिथि तक उपलब्ध बाह्य सूचना के आघार पर किया है तथा इसकी आस्तियों के वहन मूल्य की बहाली की आशा की जाती है।

30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही के दौरान, कम्पनी ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के कारण कुछ भूस्वामियों से किराया कम करने ∕ माफ करने बातचीत की है। प्रबंधकों को विश्वास है कि किराए में ऐसी कमी/माफी अल्पावधि प्रकार की है और भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय वित्तीय प्रतिवेदन प्राधिकरण के साथ परामर्श से 01 अप्रैल, 2020 के प्रमाव से कम्पनी (भारतीय लेखांकन मानक) संशोधन नियमावली के रूप में जारी अधिसूचना दिनांकित 24 जुलाई, 2020 के अनुसार अन्य शर्तों को भी पूरा करती है। इस प्रकार, उक्त अधिसूचना के अनुसार, कम्पनी ने उपलब्ध व्यावहारिक शीधता लागू करने का उपाय किया है तथा कमी/माफी से मानक में कल्पितानुसार लीज संशोधन की आवश्यकता पैदा नहीं होती है। तदनुसार, कम्पनी ने (30 जून, 2020 को समाप्त तिमाही हेतु लाभ और हानि के विवरण में 1.91 लाख) को मान्यता प्रदान की है।

सीमित पुनरीक्षण रिपोर्ट में साथेक्ष निष्कर्ष हेतु आधार पर प्रत्युत्तर — क) व्यापार प्राप्य आईएनडी-एएस 109 के तहत वित्तीय प्रपत्रों की श्रेणी में रखे गए हैं तथा कम्पनी द्वारा, क्षतियों/दायित्वों हेतु व्यवस्था ात्याशित क्रेडिट हानि^{*} (ईसीएल) विधि के अनुसार की जानी अपेक्षित है। चूंकि मामला अभी माननीय न्यायालय द्वारा निर्णीत किया जाना शेष हैं, कम्पनी इस समय उक्त लेखांकन मानकों के अनुसार क्षति राशि निर्धारित करने की स्थिति में नहीं है और अतएव कम्पनी ने आईएनकी–एएस 109 के तहत किसी 'प्रत्याशित क्रेंडिट हानि' की व्यवस्था करने से पहले न्यायालय के परिणाम की प्रतीक्षा करने का निर्णय किया है। ख) प्रबंधकगण का मत है कि राष्ट्रीय विदेशी मुदा लाम अथवा हानि का नकदी प्रवाह अथवा चालू कन्सर्न पर कोई महत्वपूर्ण प्रमाव नहीं पड़त

है, क्योंकि उसकी व्यवस्था आईएनडी-एएस 21 के अनुसार दी गई है। ग) जहां तक नकद बिक्री पर आश्रय का प्रश्न है, यह सही है क्योंकि 2014 से आगे सेबी के पास लम्बित ओपन ऑफर आवेदन और सेबी दिशानिर्देशों के अनुसार उसकी सम्पूर्ण शेयरघारिता एस्क्रो खाते में बंद होने के परिणामस्वरूप प्रवर्तक कम्पनी का सक्रिय प्रबंघन नहीं कर पाने के मूल कारण से कम्पनी पर इस समय कोई बाहरी उघारी नहीं है। हमें सूचित किया गया है कि प्रवर्तक ने सेबी में एक समझौता आवेदन प्रस्तुत किया है तथा उसको शीघ सुलझा लिए जाने की आशा है। किसी अनुकुल प्रस्ताव का कम्पनी पर वित्त और प्रचालन दोनों की दृष्टि

पूर्व अवधियाँ / वर्ष संबंधी आंकड़े, जहां कहीं आवश्यक समझा गया है, पुनर्वर्गीकृत / पुनर्समूहित किए गए हैं। उपरोक्त परिणाम लेखापरीक्षा समिति द्वारा पुनरीक्षित तथा कम्पनी के निदेशक मंडल द्वारा 29 अगस्त, 2020 को सम्पन्न इसकी बैठक में अनुमोदित किए गए हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा उसका सीमित पुनरीक्षण भी किया गया है।

नंद कुमारन पुथेजाथ (Nanda Kumaran Puthezhath

वास्त एटलस ज्वैलरी इंडिया लिमिटेड

डीआईएनः 0 2547619

OICICI Bank

को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) और गारेंटर(रों) को सूचना दी जाती है कि प्रत्याभृत क्रेडिटर के पास बंधक रखी/प्रभारित निम्नवर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका **भौतिक** कब्जा आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्राप्त किया जा चुका है, जैसी है जहां है, जैसी है जो भी है तथा जो भी है वहां है आधार पर नीचे दिए संक्षिप्त विवरण के अनुसार बेची जाएगी

सार्वजनिक सूचना – प्रत्याभूत आस्ति की बिक्री हेतु निविदा–सह–नीलामी

नियम 8 (6) का परंतुक दे अचल सम्मत्तियों की बिक्री स्वाना वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के साथ पठित प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 (6) के परंतुक के तहत अचल आस्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी बिक्री सूचना। एतद्द्वारा सर्व साधारण

शाखा कार्यालय: आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तिसरी मंजिल, न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली–110005

क्र. सं.	कर्जदार (रों)/ सह़-कर्जदारों/ गारदरों का नाम/ ऋण खाता संख्या	प्रत्याभूत आस्ति का विवरण, ऋणभारों सहित, यदि कोई	बकाया राशि (रू. में)	सुरक्षित मूल्य (रू. में) धरोहर राशि जमा (रू. में)	सम्पत्ति निरीक्षण - की तिथि एवं समय	नीलामी की तिथि एवं समय
(ক)	(ব্ৰ)	(η)	(ঘ)	(종)	(च)	(छ)
1.	बिजेन्दर कुमार (कर्जदार), सुनीता (सह–कर्जदार) LBSNP00002385175	एलआईजी फ्लैट नंबर 16, तीसरी मंजिल, सेक्टर जी -2, पॉकेट - 2, ब्लॉक ए -5 नरेला, दिल्ली - 110040 क्षेत्र- 344 वर्ग फुट	रू. 17,00, 348.24/- (अगस्त 17, 2020 तक)	ক. 13,10,000/- 1,31,000/-	अक्टूबर 01, 2020 को पूर्वा. 11:00 बजे से मध्या. 02:00 बजे तक	अक्टूबर 15, 2020 पूर्वा. 11:00 बजे से
2.	बामदेव मिश्रा (कर्जदार), श्रद्धा मिश्रा (सह कर्जदार) LBNOD00002385629	एलआईजी डीडीए फ्लैट नंबर 17, चौथी मंजिल, सेक्टर -34, पॉकेट -2, ब्लॉक बी 5, रोहिणी दिल्ली	575/-	₹0.	अक्टूबर 01, 2020 को पूर्वा. 11:00 बजे से	अक्टूबर 15, 2020 पूर्वा. 11:15
		क्षेत्र- 345 वर्ग फीट।	(अगस्त 14, 2020 तक)	2,09,000/-	मध्या. 02:00 बजे तक	बजे से
3.	चंदर (कर्जदार), तेजपाल (सह कर्जदार)	एलआईजी डीडीए फ्लैट नंबर 54, तिसरी मंजिल, सेक्टर –34,	रू. 15,39, 663/-	रू. 20,90,000/-	अक्टूबर 01, 2020 को पूर्वा.	अक्टूबर 15, 2020
	LBDEL00002384207	पॉकेट –2, ब्लॉक– ई, रोहिणी दिल्ली क्षेत्र– 345 वर्ग फीट।	(अगस्त 17, 2020 तक)	2,09,000/-	11:00 बर्ज से मध्या. 02:00 बजे तक	पूर्वा. 11:30 बजे से
4.	संदीप सहोता (कर्जदार)/ पलक सहोता/ सैंड्स	यूनिट नंबर 302, दूसरी मंजिल, ब्लॉक सी, जेएनसी प्रिसेस पार्क,	₹5. 93,62,	₹. 77,00,000/-	अक्टूबर 01, 2020 को पूर्वा.	अक्टूबर 15, 2020
	इंफोसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड (सह–कर्जदार) LBNOD00002115448	अहिंसा खंड II, इंदिरापुरम, गाजियाबाद और / अथवा फ्लैट नंबर सी – 302, दूसरी मंजिल, जेएनसी प्रिंसेस पार्क, खसरा नंबर 526/3, और 519, गांव मोहिउद्दीनपुर कनावानी, परगना लोनी, तहसील दादरी, गौतम बुद्ध नगर यूपी–201010 एरिया– 1800 वर्ग फीट.	772/- (अगस्त 18, 2020 तक)	7,70,000/-	11:00 बजे से मध्या. 02:00 बजे तक	मध्या. 12:00 बजे से
5.	शरद महावर (कर्जदार), नेहा महावर (सह-	फ्लैट नंबर 8- ई, चौथी मंजिल, पॉकेट सी, सेक्टर 3, फेज-1,	रू. 15,70, 218/-		अक्टूबर 01, 2020 को पूर्वा.	अक्टूबर 15, 2020
	कर्जदार) LBDEL00003103265	द्वारका, दिल्ली- 110075 क्षेत्र- 307 वर्ग फुट	(अगस्त 20, 2020 तक)	ন. 1,46,000/-	11:00 बजे से मध्या, 02:00 बजे तक	मध्या. 12:30 बजे से

ऑनलाइन नीलमी हमारी नीलामी मैसर्स नेक्सजेन सॉल्यशन्स प्राइवेट लिमिटेड, वेबसाइड (URL Link https://disposalhub.com) पर संचालित होगी। बंधकदाताओं / सूचना प्रेषिति अक्टूबर 14, 2020 को अप. 05.00 बजे से पूर्व तक कुल बकाया राशि उस पर आगे ब्याज सहित मुगतान करने का अर्तिम अवसर दिया जाता है, जिससे विफल रहने पर यह निरापद सम्पतियों की बिक्री निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार की जाएगी

संभौवित बोलीकर्ता (बोलीकर्ताओं) को घरोहर जमा राशि (ईएमडी) डिमाण्ड ड्राफ्ट (डीडी) (सारणी **ङ** संदर्भ करें) जो **आईसीआईसीआई** बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, शाल टॉवर न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली- 110005 में भेजना अनिवार्य है एवं इसके पश्चात उपरोक्त वर्णित मा वेबसाइट के माध्यम से दिनांक- अक्टूबर 14, 2020 को अप. 05.00 बजे से पूर्व मय ईएमडी के भुगतान साक्ष्य सर्थात बैंक डीडी पावित की स्कैन इमेज सहित जमा कराना अनिवार्य है। कृपया नोट करें कि संभावित बोलीकर्ता (बोलीकर्ताओं) वेबसाइट के माध्यम से उनके प्रस्ताव को जमा कराने में विफल कहने की स्थिति में तो वे आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड, तीसरी मंजिल, शाल टॉवर न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली – 110005 में निविदा प्रलेखों की हस्तांक्षरित प्रति को दिनांक अक्टूबर 14, 2020 को अप. 05.00 बजे से पूर्व या इस दिनांक तकजमा करवा सकते हैं । धरोहर जम राशि एक राष्ट्रीयकृत/ अनुसूचित बैंक द्वारा जारी किए गए डीडी / पीओ के रूप में आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के पक्ष में दिल्ली में देय होना अनिवार्य है।

निरिक्षण, नीलामी के नियम एवं शर्तो या निविदा के जमा कराने की बाबत् कोई भी आगामी स्पष्टीकरण हेतु कृपया **आईसीआईसीआई बैंक** लिमिटेड को 9372730494/7304904154/8657476284 या मैसर्स नेक्सजेन साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड को 9710029933/ 9810029926/01244233933 पर संपर्क करे।

या नोट करें कि मार्केटिंग एजेंसिया **1. नेक्सजेन साल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड 2. ओजीओ असेट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड** इस सम्पति प्राधिकृत अधिकारी बिना कोई आगामी कारणों को बताए कोई भी या समस्त बोलिया को रद्द करने का सर्वाधिकार सुरक्षित है।

बिक्री की विस्तृत नियमों एवं शर्तों हेतु कृपया वेबसाइट www.icicibank.com/n4p4s संपर्क करे

तिथि: अगस्त 29, 2020

प्राधिकृत अधिकारी आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड

सांकेतिक कब्जा सूचना शाखा कार्यालय : आईसीआईसीआई बैंक लि., तृतीय तल, प्लॉट नंबर 23, शाल टावर न्यू रोहतक रोड, करोल बाग, दिल्ली–110005

अघोहस्ताक्षरी ने आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में, वित्तीय आस्तियों का प्रतिमूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की घारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नवर्णित कर्जदारों को मांग सूचनाएं जारी की थी, जिसमें उनसे सूचन में वर्णितानुसार बकाया राशि का मुगतान, उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिन के भीतर करने की मांग की गई थी। कर्जदार उपरोक्त राशि चुकाने में असफल रहे हैं, एतदृद्वारा कर्जदार और जनसाधारण को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त

नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की घारा 13(4) के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यहां नीचे वर्णित संपत्ति का कब्जा निम्नवर्णित तिथियों को प्राप्त कर लिया है।

कर्जदार को विशेष रूप से तथा जन साघारण को एतदद्वारा उक्त सम्पत्ति के संबंध में संव्यवहार नहीं करने हेतु सावधान किया जाता है

क्र. सं.	कर्जदार का नाम/ऋण खाता संख्या	सम्पत्ति का वर्णन/सांकेतिक कब्जा की तिथि	मांग सूचना की तिथि/मांग सूचना में राशि (रू.)	शाखा का नाम
1.	पलाश रंजन अग्रवाल/नीरव निमेश अग्रवाल/टेकमैन बिल्डवेल प्रा. लि./विश्वनाथ अग्रवाल/असीम आनंद अग्रवाल/विनोद कुमार अग्रवाल/रमेश चंद अग्रवाल/ एलबीडीईएल00001972633	सम्पत्ति सं. 3/1, काल्काजी एक्सटेंशन, नई दिल्ली का सम्पूर्ण गू तल/25 अगस्त, 2020	30−12−2019 ₹5. 58,75,250/−	दिल्ली / एनसीआ
2.	पलाश रंजन अग्रवाल/ख्या अग्रवाल/ विश्वनाथ अग्रवाल/निम्ता/भीश अग्रवाल लक्ष्मी अग्रवाल/ टेकमैन बिल्डवेल ग्राइवेट लिगिटेड/असीम आनंद अग्रवाल/विनोद कुमार अग्रवाल/नीरव निमेष अग्रवाल/रगेश चंद अग्रवाल/विगोर अग्रवाल एलबीडीईएल00002222283	प्लॉट नंबर 3/1, मू तल, काल्काजी एक्सटेंशन, दिल्ली/25 अगस्त, 2020	30−12−2019 ₹5. 43,06,143/−	दिल्ली / एनसीआ
3.	अनुज कृमार/ज्योति रानी एलबीजीयूआर00003050595	फ्लैंट नंबर 1301, 13वां तल, जेएनसी ग्रीनवुड्स, ब्लॉक बी, सेक्टर—3, गाजियाबाद/24 अगस्त, 2020	31−12−2019 ₹6. 47,73,609/−	दिल्ली / एनसीआ
4.	अमन पंकज/जगजीत कौर एलबीएनओडी00002302449	फ्लैट नंबर ई-1604, 16वां तल, टावर ई, मनोरथ टावर, प्लॉट नंबर जीएव-04बी/1, सेक्टर-16, गौतमबुद्ध नगर, ग्रेंटर नोएडा/24 अगस्त, 2020	31−12−2019 ₹6. 39,05,197/−	दिल्ली / एनसीआ
5.	जोगिन्दर सिंह / कवलजीत कौर एलबीडीईएल00003045412	मू तल, प्लॉट नंबर 3/352, सेक्टर—3, वसुंधरा, गाजियाबाद/24 अगस्त, 2020	31−12−2019 ₹. 25,30,630/−	दिल्ली / एनसीआ
6.	पार्थ वर्मा / सिमरन माथुर / निशा माथुर / एलबीएनओसी00001893445	फ्लैट नंबर एएमएन 0260408, अमन जेपी ग्रीन्स, सेक्टर–151, नोएडा/24 अगस्त, 2020	30-11-2019 ₹5. 32,63,481/-	दिल्ली / एनसीआ
7.	मनोज कुमार/सीमा कुमार/ एलबीडीईएल00002047424	फ्लैंट नंबर 146, 14वां तल, टावर-सी, मीडोज विस्टा एनएच-58, गाजियाबाद/24 अगस्त, 2020	03-01-2020 ▼. 33,67,042/-	दिल्ली / एनसीआ
8.	श्रद्धा गुप्ता/सिद्धार्थ कृगर पंसारी/ एलबीएनओडी00002259975	फ्लैट नंबर 1742, 17वां तल, विलामेंट, महागुन मंत्रा—2, विलामेंट प्लॉट नंबर जीएच—01ए, सेक्टर—10, ग्रेटर नोएडा/24 अगस्त, 2020	26-02-2020 ₹6. 14,21,974/-	दिल्ली / एनसीआ
9.	गौरव पाराशर/जसमीन पाराशर/ एलबीडीईएल00002993362	फ्लैट नंबर 1102, 11वां तल, टावर बी, दूर्वा ग्रीन्स, प्लॉट नंबर जीएव-08ए, सेक्टर वाई 5, ग्रेटर नोएडा-201307/24 अगस्त, 2020	30−11−2019 ₹6. 86,59,820 / −	दिल्ली / एनसीआ
10.	शालिनी मंगल/नवीन गुप्ता/ एलबीडीईएल00001822709	फ्लैट नंबर 2201, 21वां तल, यूनिटेक वर्वे, ब्लॉक नंबर 04, प्लॉट नंबर 11, सेक्टर पाई 2, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश/24 अगस्त, 2020	30-11-2019 ₹6. 18,29,829/-	दिल्ली / एनसीआ
11.	मनीष भारद्वाज/हिमांशी भारद्वाज/ एलबीएनओडी00004328627	फ्लैंट नंबर सी 907, 9वां तल, टावर सी, नाइनेक्स सिटी, ग्राम खेडकी दौला, सेक्टर–76, गुडगांव/25 अगस्त, 2020	22-02-2020 ₹5. 72,29,224/-	दिल्ली / एनसीआ
12.	अजय कुमार गीतम/रितु गीतम/ एलबीएनओडी00003498122	प्लॉट नंबर जीएच-04बी-1, फ्लैट नंबर 1202, 12वां तल, टावर ई, मैस्कॉट मनोरथ, जीएच-04बी/1, सेक्टर-16, ग्रेटर नोएडा/24 अगस्त, 2020	22-02-2020 vs. 47,67,300/-	दिल्ली / एनसीआ
13.	आलोक सिंह/विमला देवी राठौर/ एलबीडीईएल00002367991	फ्लैंट नंबर 1207, 12वां तल, टावर बीउ, सुपरटेक, यूपी काउन्टी, टीएस 01, सेक्टर 17-ए, यमुना एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डवलपमेंट, नोएडा/24 अगस्त, 2020	30012020 ₹6. 20,12,290/-	दिल्ली / एनसीआ
14.	सन्नी भाटिया / ससमिता भाटिया / एलबीजीयूआर00001955094	फ्लैट नंबर एलई/ई-202, द्वितीय तल, लम्जूरिया एस्टेट आदित्य वर्ल्ड सिटी, सेक्टर-6, एनएच-24, आदित्य वर्ल्ड सिटी स्टेट, गा. जियाबाद-201010/25 अगस्त, 2020	30-01-2020 ₹5. 17,04,690/-	दिल्ली / एनसीआ
	राकेश मेहता/आस्था मेहता/ एलबीएनओढी00002379178	फ्लैट नंबर 0104. प्रथम तल, टावर-एफ02, सरे ग्रीन पार्क, सेक्टर-92, गुड़गांव/25 अगस्त, 2020	22-02-2020 ₹6, 77,30,994/-	दिल्ली / एनसीआ
	अरुण कुमार/बबीता/ एलबीजीयुआर00004853624	फ्लैट नंबर ए-4, भू तल (छत का अधिकार नहीं) बैंक साइड, प्लॉट नंबर 2/6, शक्ति खंड, इंदिरापुरम, माजियाबाद, उत्तर प्रदेश/27 अगस्त, 2020	30-11-2019 ₹6. 27,42,227/-	दिल्ली / एनसीआ
17.	लतेश / सत्यवीर सिंह / एलवीएफडीबी00002407102	फ्लैट नंबर 1203, 12वां तल, टावर एव, हैप्पी होम्स, ग्राम बुडेना, सेक्टर-86, फरीदाबाद / 27 अगस्त, 2020	30-03-2019 ₹6. 16,54,527/-	दिल्ली / एनसीआ
18.	अर्चना शर्मा/सुमित कुमार शर्मा/ एलबीजीयुआर00003732828	फ्लैट नंबर 202, द्वितीय तल, ब्लॉक–आई, ईंडब्ल्यू कॉम्प्लेक्स, सीसपाल विहार, एडब्ल्यूएचओ, सेक्टर–49/27 अगस्त, 2020	26-02-2020 ₹6. 12,71,207/-	दिल्ली / एनसीआ

अन्यथा इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की अवधि व्यतीत होने पर उक्त बंधक रखी सम्पत्तियां प्रतिभूति

हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002, के नियम 8 और 9 के तहत प्रावधानों के अनुसार बेच दी जाएंगी। तिथि : 29-08-2020 प्राधिकृत अधिकारी आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड